



MY STUDYGURU

सभी अध्ययन सामग्री फ्री में उपलब्ध

UPSC | SSC | RRB | CTET | All

other state exams

www.mystudyguru.in

Current Affairs 2020

1. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5 प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है?

1. नेपाल
2. चीन
3. भारत
4. रूस

उत्तर— भारत

विकास दर में यह कटौती कोविड -19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया कि दो महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है.

2. एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है?

1. 40.7 करोड़ डॉलर
2. 80.7 करोड़ डॉलर
3. 95.05 करोड़ डॉलर
4. 17.7 करोड़ डॉलर

उत्तर— 17.7 करोड़ डॉलर

इन सड़कों में सात जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल हैं. इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी. ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेंगी. इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, योजनाएं के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी.

3. हाल ही में किस राज्य सरकार ने आठ सौ किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी?

1. बिहार
2. पंजाब
3. उत्तर प्रदेश
4. कर्नाटक

उत्तर— उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने आठ सौ किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी. इन सड़कों के दोनों तरफ औषधी, हर्बल पेड होंगे. इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्ममी, अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड होंगे।

4. किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी?

1. कर्नाटक
2. बिहार
3. झारखंड
4. दिल्ली

उत्तर— कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही 'राज्य स्वास्थ्य पंजी' के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी. यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी. राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुरेता और मानकीकृत जानकारीयां होंगी. इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्कबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा.

5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है?

1. दस लाख रुपये
2. सात लाख रुपये
3. तीन लाख रुपये
4. चार लाख रुपये

उत्तर— सात लाख रुपये

सेबी ने NHAI पर ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि एनएचएआई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान सात बार ऐसा किया. इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक ने एनएचएआई पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

6. भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है?

1. नरिंदर बत्रा
2. जितेन्द्र सिंह
3. अभय सिंह चौटाला
4. नारायण रामचंद्रन

उत्तर— नरिंदर बत्रा

नरिंदर बत्रा पिछले साल जून में आईओसी सदस्य बने थे. ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी सत्र, आईओसी कार्यकारी बोर्ड और आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लांच करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है. नरिंदर बत्रा इससे पहले साल 2014-2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003-2013 तक एशियाई हाकी महासंघ से अध्यक्ष रहे.

7. विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

1. 10 जनवरी
2. 15 मार्च
3. 20 अप्रैल
4. 28 मई

उत्तर— 28 मई

प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के स्थाई समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है।

8. रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है?

1. 60 दिन
2. 45 दिन
3. 120 दिन
4. 90 दिन

उत्तर— 120 दिन

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है जबकि 200 ट्रेनों का संचालन एक जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह आठ बजे से लागू हो जाएगा।

9. हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपर लेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है?

1. पीएफआरडीए
2. निति आयोग
3. योजना आयोग
4. रक्षा मंत्रालय

उत्तर— पीएफआरडीए

पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है. इस पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन में सिर्फ 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है.

10. 29 मई को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?

1. विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस
2. विश्व निरोग दिवस
3. विश्व स्वास्थ्य दिवस
4. विश्व दवा दिवस

उत्तर— विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस

29 मई को विश्वभर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस (World Digestive Health Day) मनाया जाता है. इस को डब्ल्यूजीओ और डब्ल्यूजीओएफ के सहयोग से विश्वभर में मनाया जाता है.